


फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थी/वादी	बनाम	विप्रार्थी/प्रतिवादी
कलु पुत्री नारणाराम जाति दर्जी निवासी हडवेवा तहसील शिव, बाड़मेर वगैरा (03)		गोमती पत्नि नारणाराम जाति दर्जी निवासी हडवा तहसील शिव बाड़मेर वगैरा (13)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 88,91,188)

मुकदमा नम्बर :- 91/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.2021	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री बालाराम गोदारा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,91,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक <u>01.09.2021</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p>	
01.09.21	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीजग के शामिल सुदा नोटिसों का इत्तजार होकर आह्ता दिनांक 06.09.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p>	
06.09.21	<p>पत्रावली आज पेश हुई। आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त है आज सुदा होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते आज अधिवक्ता दिनांक 06.09.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p>	
08.09.21	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीजग के शामिल सुदा नोटिस पेश किये, जिसे शामिल पत्रावली किता गणा। अधिवक्ता क्लेश बुकार द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 7 व 11 की ओर से वकालतनामे पेश किये, जिसे शामिल पत्रावली किता गणा। पूर्व में अधिवक्ता बुजमेहन बुभावत द्वारा</p>	<p>अन्तर 2 दिनांक 11 गई</p> <p>B</p> <p>प्रतिवादी ल. न</p> <p>Amal Singh Res. N. A. D.</p> <p>K. Kes</p> 

काम को जारी हुए

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>06.10.25</p>	<p>पत्रावली पेशा वाकुलाप उप.। पत्रावली खास्ते शेव परिवारी साक्ष्य जिरह हेतु दिनांक 20/10/25 को पेश हो</p>	<p>सहायक कलक्टर शिव (वाड़मैर)</p>
<p>28.10.25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वार्ता/कारिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित पत्रावली में तलब की गई कार्यवाही नहीं होमे कारण इत्यादि तलब पत्रावली पूर्व आदेशिकांनुसा दिनांक 13.11.25 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर शिव (वाड़मैर)</p>
<p>13.11.25</p>	<p>पत्रावली पेशा वाकुलाप उप.। पत्रावली खास्ते शेव परिवारी साक्ष्य जिरह हेतु दिनांक 19.12.25 को पेश हो</p>	<p>सहायक कलक्टर शिव (वाड़मैर)</p>
<p>19.12.25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वार्ता/कारिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित पत्रावली में तलब की गई कार्यवाही नहीं होमे कारण इत्यादि तलब पत्रावली पूर्व आदेशिकांनुसा दिनांक 09.02.26 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर शिव (वाड़मैर)</p>
<p>31.12.25 Ramesh Adv (प्रतिवादी अधिवक्ता) अधी लीला देवी</p>	<p>वार्ता अधिवक्ता द्वारा पत्रावली तारीख पेशा पर ली जाकर तब जिरह निहो जारी कर ले का प्रार्थना पत्र पेश कर तिनेदन करे पर पत्रावली तलब की जाकर पेश हुई उत्तपत्र वाकुलाप उपस्थित। वार्ता अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2, 5 व 7 उपस्थित। उत्तपत्र अधिवक्ता एवं उपस्थित पक्षकारान् द्वारा उक्त काद में आपसी समझौदा से राजीनामा हो जाते तथा काद में आगे</p>	<p>अधी लीला देवी अधी लीला देवी अधी लीला देवी अधी लीला देवी अधी लीला देवी अधी लीला देवी अधी लीला देवी</p>

सहायक कलक्टर शिव (वाड़मैर)

2015 15

तारीख
हुक्म

की कार्यवाही नहीं चाहते के कारण वाद
को इसी स्टेज पर जरिफे विद्दे खारिज
करने का निवेदन किया गया। अग्रपक्ष
अधिकार एवं पत्रावली को सुना एवं
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
यूनि पत्रावली के मध्य आपसी सहमति
से राजीनामा हो जाने से उक्त वाद
को चलाने का कोई औचित्य प्रतीत
नहीं होता है। अतः उक्त स्थिति में
वादीपक्ष की ओर से पेश पत्रावली
पेशी पर ली जाकर वाद जरिफे विद्दे
खारिज करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर उक्त वाद को इसी
स्टेज पर जरिफे विद्दे खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल टाकर नम्बर से कर
टाकर दायित्व दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
शिव (वाडमेर)